



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 अग्रहायण 1941 (श0)

(सं0 पटना 1307) पटना, सोमवार, 2 दिसम्बर 2019

सं0 4/वि0-5-111/2018-14082 सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

सेवा में,
महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा:- वित्त विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 15 अक्टूबर 2019

विषय:- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदों एवं प्रशाखाओं के पुनर्गठन के फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के लिए स्थायी रूप से राजपत्रित/अराजपत्रित पदों के सृजन के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2759 दिनांक 28.02.2019 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग (मुख्यालय स्थापना), बिहार, पटना के बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न पद सोपन के पदबल के पुनर्गठन के उपरांत संयुक्त सचिव (निदेशक स्तर) का 01, उप सचिव का 02, अवर सचिव का 06, प्रशाखा पदाधिकारी का 04 एवं सहायक का 23 पद अतिरिक्त स्वीकृत किया गया है।

3. विभागीय आदेश संख्या-173 दिनांक 27.03.2019 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के लिए पूर्व से स्वीकृत 23 (तेईस) प्रशाखाओं के अलावा अतिरिक्त 04 (चार) प्रशाखाओं का गठन करते हुए कुल 27 (सताईस) विभागीय प्रशाखाओं के लिए कार्य आवंटित किया गया है।

4. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2759 दिनांक 28.02.2019 एवं विभागीय आदेश संख्या-173 दिनांक 27.03.2019 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदों एवं प्रशाखाओं के पुनर्गठन के फलस्वरूप कार्यों का सुचारु रूप से संचालन हेतु निम्नलिखित पदों के सृजन की आवश्यकता महसूस की गई। अतएव निम्नांकित राजपत्रित/अराजपत्रित पदों का गैर योजना मद में स्थायी रूप से सृजन किया जाता है:-

क्र०	पदनाम	स्वै त्संवर्ग	पदों की संख्या	वेतन स्तर
1	2	3	4	5
1.	आप्त सचिव	बि०स०आ०से०	01	लेवल- 9
2.	थनजी सहायक	बि०स०आ०से०	02	लेवल- 7
3.	आशुलिपिक	बि०स०आ०से०	06	लेवल- 4
4.	उच्चवर्गीय लिपिक	बि०स०लि०से०	02	लेवल- 4
5.	निम्नवर्गीय लिपिक	बि०स०लि०से०	02	लेवल- 2
6.	कार्यालय परिचारी	-	13	लेवल- 1

5. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय 1,14,35,160/- (एक करोड़ चौदह लाख पैंतीस हजार एक सौ साठ रु०) मात्र है। उक्त राशि का व्यय बजट शीर्ष “2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं-090-सचिवालय -0004-सामान्य प्रशासन विभाग के लिए विपत्र कोड संख्या-N2052000900004 से किया जायेगा।

6. उक्त राशि की निकासी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1307-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>